

September 18, 2019

To,  
The U.P RERA Authority  
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan,  
Kala Kankar House, Old Hyderabad,  
Lucknow - 226007

**Subject:- Clarification on the status of the Project**

Respected Sir,

This is to inform you that we are proposing to develop a plotted residential colony by the name of "Eldeco Inner Circle" ("Project") on the land admeasuring 7744.91 sq mtr. forming part and parcel of township "Eldeco Shaurya" on the total land admeasuring approx. 43.3 acres situated at Bijnore Road, Lucknow, Uttar Pradesh . The proposed Project shall be comprising of 22 nos. of plots and 11 nos of villas duly approved by Lucknow industrial Development Authority vide Permit no 721 dated 27/02/2018.

We wish to confirm here that the proposed Project is a "new " project. We shall soon begin with the construction/development work of the Project and shall commence marketing of the Project after duly registration the Project under the provisions of Real Estate (Regulation and Development )Act, 2016.

Regards  
For Eldeco Housing and Industries Ltd

  
Pankaj Bajaj  
Chairman cum Managing Director

**Eldeco Housing & Industries Ltd.**



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जै-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-12

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के लिये प्रपत्र


सेवा में,

श्री आई०एच० सिद्दीकी ( अतिरिक्त महाप्रबन्धक)  
प्रतिनिधि, एलिडको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 475 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं० 424 दि० 02.11.15 के साथ संलग्न भू-विन्यास मानचित्र पर अंकित है, के भूखण्ड सं० जी-4 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 7744.91 वर्गमीटर पर स्वीकृत हेतु भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार निर्माण/विकास/परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण कतिपय शर्तों के अधीन आपके आवेदन-पत्र पर भू-विन्यास मानचित्र ( आवासीय भू-प्रयोग) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। निर्धारित शर्तें अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

27/02/18  
(एस०पी० सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 721

दिनांक 27/02/2018

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण(लीडा),


लखनऊ।

संख्या ...../ल0औ0वि0प्रा0/मैप


दि0.....

भू-विन्यास अनुमति - पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित बिल्डिंग वाईलाज व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उप-विभाजन तलपट मानचित्र हेतु प्राविधान व प्राधिकरण भवन विनियमावली 2009 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भू-विन्यास करा रहा है इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवासी या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा। निम्नलिखित प्रतिबंधों शर्तों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री आई0एच0 सिद्दीकी ( अतिरिक्त महाप्रबन्धक) प्रतिनिधि, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-10 द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं0 424 दि0 02.11.15 के साथ संलग्न भू-विन्यास मानचित्र पर अंकित है, भूखण्ड सं0 जी-4 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 7744.91 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर भू-विन्यास मानचित्र हेतु जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार विकास हेतु प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र (आवासीय भू-प्रयोग) का अनुमोदन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दि0 27.02.18 को किया जा चुका है।

  
सहा0 प्रबन्धक (परि0)

  
प्रबन्धक (परि0)


  
सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

  
वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)


दिनांक-

नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नहीं विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू-विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू-विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के उपरांत स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निम्न शर्तें प्रभावी होंगी:-


1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नहीं विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू-विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू-विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।
2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह भू-विन्यास विकास को निरस्त अथवा रोक अथवा हटा सकता है।
3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।
4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावे जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू-विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।
5. भू-विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण,सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यों को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
6. वाहय अवस्थापनागत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासात्मक कार्यों के विरुद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।



8. भूखण्डों पर व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण कराया जायेगा उसका मानचित्र लीडा भवन विनियमावली, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत लीडा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
9. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आवेदक द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
10. यह अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
12. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक-ऑन-एज" / लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
13. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
14. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग, गूकूह या समकक्ष फार्मेट में द्वी सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
15. प्राधिकरण द्वारा समय-2 पर आवेदक से माँगे जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।
16. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।
17. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी० व आर्की० की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
18. प्राधिकरण के सहा० प्रबंधक परि० अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
19. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
20. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
21. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।


22. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है।
23. प्रश्नगत स्वीकृति ले-आउट प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।
24. ले-आउट प्लान के अंतर्गत तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर (देवालय) व नाले इत्यादि के स्वरूप को यथावत रखना होगा तथा किसी भी दशा में इसका संकुचन अनुमन्य नहीं होगा।
25. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस0टी0पी0/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पर्या0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
26. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेंगे अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
27. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
28. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
29. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस माँगे जाने पर आवेदक प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा
30. विकासकर्ता द्वारा परियोजना में नियमानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
31. विकासकर्ता को योजना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता व डिजाईन को जल निगम के मानकों के अनुसार योजना में करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान- 2031 की नीति के





अनुसार कुल जलापूर्ति के 80 प्रतिशत सीवेज की मात्रा की गणना की जायेगी। विकासकर्ता को जनसंख्या के अनुसार सालिड वेस्ट निस्तारण स्थल (गारबेज कलेक्शन सेंटर) हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी।

32. यदि भविष्य में मा० न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निदेश, किन्ही प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
33. योजना के मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों के संबंध में मे० एल्लिको हाउसिंग इण्डस्ट्रीज लि० को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
34. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
35. किन्ही भी शर्तों का अनुपालन न करने पर ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

  
सहायक प्रबन्धक (परि०)

  
प्रबन्धक (परि०)

  
सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

पत्र सं० 72.1...../लीडा/ए०सी०ई०ओ./335.....दिनांक 27/02/2010

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के विवरण से आवेदक को अवगत कराना चाहे।
3. संबंधित सहा० प्रबन्धक परि० (जोन-लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य हो को सुनिश्चित कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

  
वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र


सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 515 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 437 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1453

दिनांक 27/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र


सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 522 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 438 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम -श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1434 .....

दिनांक 26/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र


सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 403 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 439 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1437

दिनांक 26/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जें-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,


मे० एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 525 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 440 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हरताक्षर



अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1440

दिनांक 21/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,

कारपोरेट चैम्बर-1,

विभूति खण्ड गोमतीनगर,

लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 510 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 441 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1436

दिनांक 26/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 526 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 442 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर



अधिकारी का नाम -श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1432

दिनांक 26/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

भे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 520 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 443 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1433

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

दिनांक 26/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,

कारपोरेट चैम्बर-1,

विभूति खण्ड गोमतीनगर,

लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 516 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 444 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1449

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

दिनांक 27/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,

कारपोरेट चैम्बर-1,

विभूति खण्ड गोमतीनगर,

लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 517 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 445 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1450 .....

दिनांक 27/12/18



# लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र


सेवा में,

मे० एल्लिडको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,  
कारपोरेट चैम्बर-1,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर,  
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 521 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 446 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम --श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम -- प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1439

दिनांक 27/12/18



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,

कारपोरेट चैम्बर-1,

विभूति खण्ड गोमतीनगर,

लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 513 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० सं० 721 दि० 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 447 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - श्री ओ०पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1452 .....

दिनांक 27/12/18